



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,
Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

27 जून 2025

भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी), मार्च 2025

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने [मार्च 2025 की समाप्ति](#) तक के लिए [भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति](#) से संबंधित आंकड़े जारी किए ^[1]।

मुख्य बातें

जनवरी-मार्च 2025 के दौरान आईआईपी:

- भारत पर अनिवासियों के निवल दावे 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान 34.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर मार्च 2025 के अंत तक 330.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गए।
- भारत में विदेशी स्वामित्व वाली आस्तियों में वृद्धि (25.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय आस्तियों में उच्च वृद्धि (60.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के कारण तिमाही के दौरान अनिवासियों के निवल दावों में गिरावट आई ([तालिका 1](#))।
- भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय आस्तियों में वृद्धि में आरक्षित आस्तियों की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत से अधिक रही, जिसके बाद मुद्रा एवं जमा तथा प्रत्यक्ष निवेश का स्थान रहा।
- जनवरी-मार्च 2025 के दौरान भारतीय निवासियों की विदेशी देयताओं में वृद्धि में ऋण में वृद्धि (10.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और प्रत्यक्ष आवक निवेश (9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर) दोनों की मिलकर हिस्सेदारी तीन-चौथाई से अधिक रही।
- भारत की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय आस्तियों में आरक्षित आस्तियों की हिस्सेदारी 58.7 प्रतिशत रही ([तालिका 3](#))।
- भारत की अंतरराष्ट्रीय देयताओं की तुलना में अंतरराष्ट्रीय आस्तियों का अनुपात एक तिमाही पहले के 74.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 में 77.5 प्रतिशत हो गया ([चार्ट 1](#) और [तालिका 1](#))।

[1] भारत की तिमाही आईआईपी एक तिमाही के अंतराल पर प्रसारित की जाती है और दिसंबर 2024 की समाप्ति तक के लिए पिछली तिमाही की आईआईपी [28 मार्च 2025](#) को आरबीआई वेबसाइट पर जारी की गई थी।

- तिमाही के दौरान कुल बाह्य देयताओं में ऋण देयताओं की हिस्सेदारी बढ़कर 54.8 प्रतिशत हो गई। ([तालिका 4](#))।

अप्रैल-मार्च 2024-25 के दौरान आईआईपी:

- वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत की बाह्य वित्तीय देयताओं (74.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में बाह्य वित्तीय आस्तियों में उच्च वृद्धि (105.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के कारण अनिवासियों के निवल दावों में 31.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई ([तालिका 1](#))।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, मुद्रा एवं जमा तथा आरक्षित आस्तियों में वृद्धि के कारण भारत की विदेशी वित्तीय आस्तियों में 72 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।
- वर्ष के दौरान विदेशी देयताओं में वृद्धि में प्रत्यक्ष निवेश, ऋण तथा मुद्रा एवं जमा का योगदान तीन-चौथाई से अधिक रहा।
- भारत की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय देयताओं की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आस्तियों का अनुपात एक वर्ष पहले के 74.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 में 77.5 प्रतिशत हो गया ([चार्ट 1](#) और [तालिका 1](#))।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आस्तियों और देयताओं का अनुपात:

- जीडीपी के अनुपात में (वर्तमान बाजार मूल्यों पर), 2024-25 के दौरान निवासियों की विदेशी वित्तीय आस्तियों में वृद्धि हुई और बाह्य वित्तीय देयताओं में गिरावट आई ([तालिका 2](#))।
- जीडीपी की तुलना में भारत पर अनिवासियों के निवल दावों का अनुपात में सुधार होकर मार्च 2025 में (-)8.7 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले (-)10.1 प्रतिशत और पांच वर्ष पहले (-)14.1 प्रतिशत था।

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/616

(पुनीत पंचोली)

मुख्य महाप्रबंधक




Table 1: Overall International Investment Position of India

(US\$ billion)

Period	Mar-24 (PR)	Jun-24 (PR)	Sep-24 (PR)	Dec-24 (PR)	Mar-25 (P)
Net IIP (A-B)	-361.2	-366.9	-353.0	-364.2	-330.0
A. Assets	1,033.8	1,052.0	1,119.4	1,079.2	1,139.2
1. Direct Investment	242.3	246.6	254.5	260.8	270.5
1.1 Equity and investment fund shares	153.4	156.6	162.4	166.5	173.6
1.2 Debt instruments	88.9	90.0	92.1	94.3	96.9
2. Portfolio Investment	12.5	12.4	12.5	12.2	13.7
2.1 Equity and investment fund shares	11.0	10.7	11.2	9.4	8.7
2.2 Debt securities	1.5	1.7	1.3	2.8	5.0
3. Other Investment	132.6	141.0	146.6	170.5	186.7
3.1 Trade Credits	33.4	32.8	32.9	33.2	33.4
3.2 Loans	17.6	20.8	22.1	22.5	25.9
3.3 Currency and Deposits	53.5	57.8	56.1	68.6	79.3
3.4 Other Assets	28.1	29.6	35.5	46.2	48.1
4. Reserve Assets	646.4	652.0	705.8	635.7	668.3
B. Liabilities	1,395.0	1,418.9	1,472.4	1,443.4	1,469.2
1. Direct Investment	542.9	552.8	555.3	547.1	556.8
1.1 Equity and investment fund shares	511.1	520.6	522.8	513.0	521.9
1.2 Debt instruments	31.8	32.2	32.5	34.1	34.9
2. Portfolio Investment	277.3	277.4	294.3	276.6	272.0
2.1 Equity and investment fund shares	162.1	160.9	170.9	155.6	141.9
2.2 Debt securities	115.2	116.5	123.4	121.0	130.1
3. Other Investment	574.8	588.7	622.8	619.7	640.4
3.1 Trade Credits	123.7	125.9	131.3	135.6	131.2
3.2 Loans	221.4	224.6	239.4	240.6	250.6
3.3 Currency and Deposits	154.8	160.6	164.1	165.7	167.6
3.4 Other Liabilities	74.9	77.6	88.0	77.8	91.0
<i>of which:</i>					
Special drawing rights (Net incurrence of liabilities)	21.9	21.8	22.4	21.6	22.0
Memo Item: Assets to Liability ratio (%)	74.1	74.1	76.0	74.8	77.5

Notes (applicable for all tables):

1. P: Provisional; PR: Partially Revised; and R: Revised.
2. The sum of the constituent items may not add to the total due to rounding off.

Table 2: Ratios of External Financial Assets and Liabilities to GDP

Period	(per cent)		
	Mar-23 (R)	Mar-24 (PR)	Mar-25 (P)
Net IIP (A-B)	-11.3	-10.1	-8.7
A. Assets	28.2	28.5	29.3
1. Direct Investment	6.8	6.7	6.9
1.1 Equity and investment fund shares	4.3	4.2	4.4
1.2 Debt instruments	2.5	2.5	2.5
2. Portfolio Investment	0.5	0.3	0.3
2.1 Equity and investment fund shares	0.3	0.3	0.2
2.2 Debt securities	0.2	-	0.1
3. Other Investment	3.2	3.6	4.8
3.1 Trade Credits	0.8	0.8	0.8
3.2 Loans	0.4	0.5	0.7
3.3 Currency and Deposits	1.0	1.5	2.1
3.4 Other Assets	1.0	0.8	1.2
4. Reserve Assets	17.7	17.9	17.3
B. Liabilities	39.5	38.6	38.0
1. Direct Investment	16.0	15.0	14.4
1.1 Equity and investment fund shares	15.1	14.1	13.5
1.2 Debt instruments	0.9	0.9	0.9
2. Portfolio Investment	7.5	7.7	7.1
2.1 Equity and investment fund shares	4.3	4.5	3.7
2.2 Debt securities	3.2	3.2	3.4
3. Other Investment	16.0	15.9	16.5
3.1 Trade Credits	3.8	3.4	3.4
3.2 Loans	6.2	6.1	6.5
3.3 Currency and Deposits	4.3	4.3	4.3
3.4 Other Assets	1.7	2.1	2.3
<i>of which:</i> Special drawing rights (Net incurrence of liabilities)	0.7	0.6	0.6

Table 3: Composition of International Financial Assets and Liabilities of India

(per cent)

Period	Mar-24 (PR)	Jun-24 (PR)	Sep-24 (PR)	Dec-24 (PR)	Mar-25 (P)
A. Assets					
1. Direct Investment	23.4	23.4	22.7	24.2	23.7
2. Portfolio Investment	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2
3. Other Investment	12.9	13.4	13.1	15.8	16.4
4. Reserve Assets	62.5	62.0	63.1	58.9	58.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
B. Liabilities					
1. Direct Investment	38.9	39.0	37.7	37.9	37.9
2. Portfolio Investment	19.9	19.5	20.0	19.2	18.5
3. Other Investment	41.2	41.5	42.3	42.9	43.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Table 4: Share of External Debt and Non-Debt Liabilities of India

(per cent)

Period	Mar-24 (PR)	Jun-24 (PR)	Sep-24 (PR)	Dec-24 (PR)	Mar-25 (P)
Non-Debt Liabilities	48.3	48.0	47.1	46.3	45.2
Debt Liabilities	51.7	52.0	52.9	53.7	54.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0